

निवेशक संबंध विभाग

प्रधान कार्यालय :

स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक,

8वीं मंजिल,

बान्द्रा कुर्ला संकुल,

बान्द्रा (पूर्व),

मुंबई - 400 051

दूरध्वनि : (022)- 6668 4490

फेक्स : (022)- 6668 4491

इमेल: headoffice.share@bankofindia.co.in

INVESTOR RELATIONS CELL

HEAD OFFICE :

Star House, C-5, "G" Block,

8th Floor (East Wing),

Bandra- Kurla Complex,

Bandra (East)

Mumbai - 400 051

Phone : (022)- 6668 4490

Fax : (022)- 6668 4491

E-Mail : headoffice.share@bankofindia.co.in

Ref No.:HO:IRC:SD:2020-21:125

Date: 17.08.2020

The Vice President – Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400 051.

The Vice-President – Listing Department,
BSE Ltd.,
25, P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai 400 001.

Dear Sir/Madam,

Submission of copies of Newspaper Advertisement in r/o Public Notice for Unclaimed/Unpaid Dividend


Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Regulations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of advertisement published in newspapers in respect of Public Notice for Unclaimed/Unpaid Dividend on the Bank's shares declared during the year 2012-13, is falling due for transfer to IEPF Account in the month of August 2020 and interim dividend declared during the year 2013-14, is falling due to transfer to IEPF Fund in the month of January 2021, as per section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

This is for your information and appropriate dissemination.

Thanking you,



Yours faithfully,



(Rajeev Bhatia)
Company Secretary

Encl.: As Above.

बिज़नेस स्टैंडर्ड मुंबई | 15 अगस्त 2020 शनिवार

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
रिश्तों की ज़मानगी



प्रधान कार्यालय : स्टार हाऊस, प्लॉट-सी-5, "जी" ब्लॉक,
बॉन्ड्रा-कूला कॉम्प्लेक्स, बॉन्ड्रा (ईस्ट), मुंबई-400051

सार्वजनिक सूचना

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व ट्रांसफर) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान घोषित बैंक के शेयरों पर अदावित/अभुक्त लामांश अगस्त, 2020 माह में आईईपीएफ खाते में अंतरण के लिए नियत है और वर्ष 2013-14 के दौरान घोषित अंतरिम लामांश जनवरी, 2021 माह में आईईपीएफ निधि में अंतरण के लिए नियत है। बैंक प्रत्येक वर्ष वार्षिक साधारण बैठक की सूचना के 'नोट' में लामांशों का अपना नकदीकरण/प्राप्ति नहीं कर सके शेयरधारकों से अभुक्त/अदावित लामांशों के दावे और नकदीकरण करने के लिए अनुरोध कर रहा है।

हम एक बार पुनः 2012-13 से अपने लामांश का नकदीकरण/प्राप्ति नहीं कर सके शेयरधारकों से उपर्युक्त पते पर बैंक के कंपनी सचिव को अपने दावे जमा करने या headoffice.share@bankofindia.co.in पर ई-मेल करने का अनुरोध करते हैं ताकि उनके दावे समय-सीमा में निपटारित/मुगलान किए जा सकें।

स्थान: मुंबई दिनांक: 13.08.2020

कंपनी सचिव

Business Standard MUMBAI | FRIDAY, 14 AUGUST 2020

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship beyond banking



Head Office : Star House, C-5, G-Block, Bandra-Kurla
Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

PUBLIC NOTICE

The Unclaimed/unpaid Dividend on the Bank's shares declared during the year 2012-13, is falling due for transfer to IEPF Account in the month of August 2020 and interim dividend declared during the year 2013-14, is falling due to transfer to IEPF Fund in the month of January 2021, as per section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Bank has been requesting Shareholders who have not encashed/received their dividends to make their claims and encash the unpaid/unclaimed dividends, in the 'notes' to the Notice of the Annual General Meeting every year.

We once again request Shareholders, who have not encashed/received their dividend from the year 2012-13 onwards, to submit their claims to the Company Secretary of the Bank at the above address, or email at headoffice.share@bankofindia.co.in so that their claims get settled/paid within time.

Place: Mumbai Date : 13.08.2020

Company Secretary

